

प्रेस नोट दिनांक 24.04.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री जयशंकर सिंह एवं उनकी टीम द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के द्वितीय चरण के मतदान के दौरान दिनांक-19.04.2021 को थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम कनकोटा में पोलिंग बूथ पर उपद्रव मचाकर मारपीट करने वाले तथा मत पेटिका में पानी फेंकने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.04.2021 को ग्राम कनकोटा में पोलिंग बूथ में मतदान समाप्ति के बाद पेटियां सील की जा रही थी तभी प्रधान प्रत्याशी जगदीश शुक्ला एवं द्वितीय पक्ष के प्रधान प्रत्याशी अजय पांडे एवं उनके सहयोगियों के साथ विवाद हुआ है जिसमें दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति को चोटें आई थी। इस विवाद में मत पेटिका में मतपेटिका में पानी डाल दिया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 89/21 धारा 395/332/353/188/269/504/506/427/120B ipc व 7 क्रि0ला0अ0 एक्ट व 136(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पंजीकृत किया गया। दोनों पक्षों में हुई मारपीट के सम्बन्ध में वादिया श्रीमती रेखा देवी की तहरीर पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 90/2021 धारा 147/148/308/323/506 भादवि0 पंजीकृत किया गया। मारपीट में घायल हुए पहलवान पुत्र रामकेवल पाण्डेय उम्र 59 वर्ष निवासी कनकोटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट की इलाज के दौरान एस0आर0एन अस्पताल प्रयागराज में दिनांक-23.04.2021 को मृत्यु हो गयी थी। प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा घटना से सम्बन्धित 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थे कि आज दिनांक 24.04.2021 को पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त दोनों मुकदमों में वाँछित अभियुक्त लालमणि पुत्र श्यामसुन्दर को 11 अदद जीर्ण-शीर्ण अर्द्ध फटे वैलट पेपर के साथ तथा (2) अभियुक्त घनश्याम पाण्डेय पुत्र रामसूरत को 10 अदद जीर्ण-शीर्ण अर्द्ध फटे वैलट पेपर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

बरामदगी:-

21 अदद जीर्ण-शीर्ण अर्द्ध फटे वैलट पेपर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री जयशंकर सिंह
2. आरक्षी लालू यादव
3. आरक्षी बब्बू राजा

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अवधेश कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी के मार्गदर्शन में आरक्षी प्रवीण कुमार यादव एवं आरक्षी प्रमोद कुमार यादव द्वारा ओवरी मोड़ पहाड़ी से अभियुक्त शिवप्रकाश उर्फ सोनू पुत्र मतगंजन यादव निवासी देवल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 22 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

22 क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. आरक्षी प्रवीण कुमार यादव
2. आरक्षी प्रमोद कुमार यादव

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 24.04.2021 को एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा धुस मैदान एवं कर्वी शहर में भ्रमण कर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत

महिलाओं/ बालिकाओं से मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाली महिलाओं/बालिकाओं से बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया। महिला आरक्षी द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(4). कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ उमराव के मार्गदर्शन में दिनांक-24.04.2021 को अग्निशमन की टीमों द्वारा फायर बिग्रेड के माध्यम से कर्वी शहर में चकरेही चौराहे से दिवाकर अस्पताल तक दोनों तरफ 2.चकरेही चौराहे से कसहाई रोड तक सड़क के दोनों तरफ 3.तरौहा सड़क के दोनों तरफ 4. थाना रैपुरा परिसर को सेनेटाइज किया।